

Child Health and Sports


Cooperative

Health Bulletin

कोरोना से खुद की रक्षा



सोशल
डिस्टेंसिंग:
एक-दूसरे
से छह
फीट अलग
रखना ।



घर पर रहकर:
केवल जरूरी वस्तुओं और कामों के लिए घर से बाहर कदम.

